



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2011 (अग्रहायण 26, 1933)  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2011 (AGRAHAYANA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2011

सं. 580, दिनांक 17 नवम्बर 2011—अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्ट संजीव कालिता (एमएस-16569एल), (एफ-30900टी), आयोग की तिथि 22 मार्च 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान मुजफर अहमद भट्ट (एमएस-16713पी) आयोग की तिथि 17 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 दिसम्बर 2009

से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान श्वेता सिकरवार (एमएस-16595एम) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 जून 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति विद्या एवं स्त्री रोग के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान अश्विनी कुमार मिश्रा (एमएस-16728एक्स) आयोग की तिथि 01 जुलाई 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति डॉक्टर आफ मेडीसिन (माइक्रोबायोलोजी) के लिए 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान राजेश कुमार पाण्डेय (एमएस-16170एन) आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 फरवरी 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान नेहा सोडी (एमएस-15757ए) आयोग की तिथि 25 अप्रैल 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान निशांत लोहिया (एमएस-16046एम) आयोग की तिथि 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त 2008 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान सुरिन्द्र कुमार (एमएस-16160के) आयोग की तिथि 10 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10 फरवरी 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान राखी सिंह (एमएस-16172वाई) आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 फरवरी 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान सुनील शर्मा (एमएस-16298वाई) आयोग की तिथि 28 जुलाई 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 जनवरी 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान के नीलवेल (एमएस-16328एल) आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 फरवरी 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान मुकेश (एमएस-16646पी) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 जून 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान प्रशान्त गुप्ता (एमएस-16612एफ) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 जून 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान शिल्पी (एमएस-16593एफ) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 जून 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान डी प्रिया (एमएस-16698एल) आयोग की तिथि 16 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 जून 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)

के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान अबीद अहमद (एमएस-16686डब्ल्यू) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान रचना पोल (एमएस-16439एच) आयोग की तिथि 04 जनवरी 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 04 जुलाई 2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान जोसफ जे बी मल (एमएस-16497एम) आयोग की तिथि 29 जनवरी 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 जनवरी 2007 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (अर्थोपेडिक्स) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परखा पर)

फ्ला लेफ्टि मिस्बा उल्ला उमेर (एमएस-16710एफ), (एफ-31094जी), एएमसी, 17 जून 2010

फ्ला लेफ्टि डोरले शोखर लेशराम (एमएस-16667एल), एफ-31079एन), एएमसी, 15 जून 2010

फ्ला लेफ्टि भरत सी एस (एमएस-16730पी), (एफ-31096एन), एएमसी, 06 जुलाई 2010

कप्तान के पद पर (परखा पर)

कप्तान पवार रमेश संतराम (एमएस-16513वाई), एएमसी, 11 फरवरी 2010

कप्तान अमिताभ चक्रवर्ती (एमएस-16760एम), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान कार्तिकेय आर सिंह (एमएस-16258एक्स), एएमसी, 20 अगस्त 2009

कप्तान एल रीनी मैथ्युस (एमएस-16274पी), एएमसी, 20 सितम्बर 2009

कप्तान पलश ज्योती शर्मा (एमएस-16343ए), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान अश्विनी कुमार मिश्र (एमएस-16728एक्स), एएमसी, 01 जुलाई 2010

कप्तान सन्ध्या सिनचुरी (एमएस-16708के), एएमसी, 17 जून 2010

कप्तान प्रदीप मिश्रा (एमएस-16150ए), एएमसी, 29 जुलाई 2009

कप्तान प्रशांत के (एमएस-16173एफ), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान विष्णु वर्धन के (एमएस-16306एम), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान सिद्धरामेश गडगी (एमएस-16461एन), एएमसी, 08 जनवरी 2010

कप्तान वैभव गौड (एमएस-16762एक्स), एएमसी, 15 जुलाई 2010

कप्तान राजेश कुमार पाण्डेय (एमएस-16170एन), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान मूज़फर अहमद भट्ट (एमएस-16713पी), एएमसी, 17 जून 2010

कप्तान अनुज कुमार शर्मा (एमएस-16720एल), एएमसी, 22 जून 2010

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि अंशुल मीणा (एमएस-16772एफ), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि प्रशान्त पिलानिया (एमएस-16778एच), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि वरूण दीप मान (एमएस-16779एल), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि निरंजन साहु (एमएस-16780ए), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि तपस रंजन बिर्सा (एमएस-16786एफ), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि विगनेश एस (एमएस-16767डब्ल्यू), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि मास्टर जिवकी (एमएस-16769एफ), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि नवजोत कौर (एमएस-16764एच), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि जसमिन कौर हुंडल (एमएस-16765एल), एएमसी, 18 मार्च 2011

लेफ्टि सुब्रत कुमार दास (एमएस-16766एन), एएमसी, 18 मार्च 2011

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि भिरूड योगेश राजेश (एमएस-16092एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

सर्जन लेफ्टि अलोक कुमार (एमएस-16199डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2009

सर्जन लेफ्टि महेश कुमार जैन (एमएस-16201एच), एएमसी, 11 अगस्त 2009

सर्जन लेफ्टि धोकिया गौतम कुमार रमेशभाई (एमएस-16669डब्ल्यू), एएमसी, 15 जून 2010

सर्जन लेफ्टि योगेश खुराना (एमएस-16691एफ), एएमसी, 16 जून 2010

सर्जन लेफ्टि प्रीति एम एस (एमएस-16694पी), एएमसी, 16 जून 2010

सर्जन लेफ्टि पदमा प्रिया श्रीनिवासन (एमएस-16706वाई), एएमसी, 17 जून 2010

सर्जन लेफ्टि सुधीर सुधाकर खुणे (एमएस-16717एल), एएमसी, 18 जून 2010

सर्जन लेफ्टि सोनल निम्भोरकर (एमएस-16725के), एएमसी, 26 जून 2010

सर्जन लेफ्टि चौहान प्रेमदीप महेन्द्र सिंह (एमएस-16655डब्ल्यू), एएमसी, 15 जून 2010

सर्जन लेफ्टि स्वरूप पटनायक (एमएस-16663पी), एएमसी, 15 जून 2010

सर्जन लेफ्टि खेम सागर पटेल (एमएस-16437एक्स), एएमसी, 04 जनवरी 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 581, दिनांक 17 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. तथा कमीशन की तिथि

कप्तान संजय कुमार (एनटीआर-16803डब्ल्यू), 15 फरवरी 2008

कप्तान संतोष कुमार रघुवंशी (एनटीआर-16815एल), 07 अप्रैल 2009

कप्तान अमनदीप सिंह (एनटीआर-16819एफ), 07 अप्रैल 2009

कप्तान विजय सिंह गुर्जर (एनटीआर-16825पी), 07 अप्रैल 2009

कप्तान प्रेमजिथ लाल एल (एनटीआर-16766एन), 20 मार्च 2007  
 कप्तान अमित कुमार (एनटीआर-16800एच), 15 फरवरी 2008  
 कप्तान अनिल कुमार उपाध्याय (एनटीआर-16827ए), 07 अप्रैल 2009

कप्तान परि के (एनटीआर-16765एल), 20 मार्च 2007  
 लेफ्टि एस थंगवेल (एनटीआर-16817डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि अर्जुन सिंह (एनटीआर-16814एच), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि ओंकार सिंह (एनटीआर-16816एन), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि शुधीर कुमार शर्मा (एनटीआर-16820डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि सलेश कुमार (एनटीआर-16821वाई), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि सुधीर कुमार दरयान (एनटीआर-16822एफ), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि विनय कुमार (एनटीआर-16823के), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि दिलिप कुमार (एनटीआर-16824एम), 07 अप्रैल 2009  
 लेफ्टि ओम प्रकाश चौधरी (एनटीआर-16828एक्स), 07 अप्रैल 2009

#### अल्पकालिक सेवा कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि राम चंद्रा भट्टराय (एनटीएस-17583के), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि सत्यनारायण (एनटीएस-17584एम), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि एस वी नरसिम्हा राव सी एच (एनटीएस-17579एफ), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि संजय राणा (एनटीएस-17580डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि मोडरांगतम रंजन मीतेयी (एनटीएस-17581वाई), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि संजय सिंह राघव (एनटीएस-17582एफ), 07 अप्रैल 2010  
 लेफ्टि गिरिश जी (एनटीएस-17585पी), 07 अप्रैल 2010

यश पांडे  
 ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

-----

#### सेना शाखा

सं. 582, दिनांक 17 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### अल्पकालिक सेवा कमीशन

#### सेना चिकित्सा सेवा

#### स्काइन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

स्काइन लीडर निरंजन मोहन (एमएस-14031एल) (एफ-26033एफ), 13 मई 2011

#### मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

मेजर आशुतोष कंसल (एमएस-14713डब्ल्यू), 10 जून 2011  
 मेजर निधि वोहरा मग्गों (एमएस-15851के), 29 अगस्त 2010

#### फ्लाईट लेफ्टि से स्काइन लीडर के पद पर

फ्लाईट लेफ्टि संतोष कुमार उमर (एमएस-15476के) (एफ-28877एफ), 22 जनवरी 2011

फ्लाईट लेफ्टि ललित कुमार (एमएस-15625एम) (एफ-29419एल), 06 मार्च 2011

फ्लाईट लेफ्टि राहुल (एमएस-14858एफ) (एफ-27661जी), 09 अगस्त 2009

फ्लाईट लेफ्टि अमित कुमार (एमएस-14869एन) (एफ-27662के), 09 अगस्त 2009

फ्लाईट लेफ्टि अर्पिता जैन (एमएस-15248एफ) (एफ-28415एच), 02 फरवरी 2011

फ्लाईट लेफ्टि बी प्रवीन कुमार (एमएस-15471एल) (एफ-28882एफ), 22 जनवरी 2011

फ्लाईट लेफ्टि जया तिवारी (एमएस-15477एम) (एफ-28888जी), 22 जनवरी 2011

#### स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

#### कप्तान से मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तिथि

कप्तान मोहन सिंह कापकोटि (एनटीआर-16711के), 28 अप्रैल 2011

कप्तान जायावेलु एस (एनटीआर-16712एम), 28 अप्रैल 2011

कप्तान आई अरोकिया सामि (एनटीआर-16713पी), 28 अप्रैल 2011

कप्तान रमेश टी के (एनटीआर-16714एक्स), 28 अप्रैल 2011

कप्तान कैलाश पी एस (एनटीआर-16715ए), 28 अप्रैल 2011

कप्तान सुनील वाई (एनटीआर-16716एच), 28 अप्रैल 2011

कप्तान गुराम रवि एन (एनटीआर-16717एल), 28 अप्रैल 2011

कप्तान संजीव उनियाल (एनटीआर-16718एन), 28 अप्रैल 2011

कप्तान विनोद कुमार यू (एनटीआर-16719डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2011

कप्तान रविंद्रा कुमार मलिक (एनटीआर-16720एल), 28 अप्रैल 2011

कप्तान डी प्रकाश राव (एनटीआर-16721एन), 28 अप्रैल 2011

कप्तान विरेंद्रा कुमार पांडे (एनटीआर-16723वाई), 28 अप्रैल 2011

कप्तान दलीप कुमार (एनटीआर-16810एम), 28 अप्रैल 2011

कप्तान वर्गीस के वाई (एनटीआर-16811पी), 28 अप्रैल 2011

कप्तान गुरुमैत्रा गिरि (एनटीआर-16812एक्स), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान कैलाश चंद्रा (एनटीआर-16828एच), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान चंद्र प्रकाश (एनटीआर-16829एल), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान प्रभाकरन के (एनटीआर-16830ए), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान सुरेश पी एस (एनटीआर-16846एल), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान हरि साई श्रीनिवास (एनटीआर-16847एन), 28 अप्रैल 2011

अल्पकालीन सेवा कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान नरेंद्रा सिंह (एनटीएस-17506पी), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान तोमर शिव प्रकाश सिंह राजेंद्रा सिंह (एनटीएस-17511ए), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान बिजय कुमार पी एस (एनटीएस-17513एल), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान नीलकंठन पी एस (एनटीएस-17514एन), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान परविंदर सिंह (एनटीएस-17515डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान विकास चंद राणा (एनटीएस-17520एफ), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान अभय सिंह (एनटीएस-17523पी), 28 अप्रैल 2011  
 कप्तान रविंदर जामभले (एनटीएस-17525ए), 28 अप्रैल 2011

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन अक्षय शुक्ला (एमएस-15443वाई), 22 जनवरी 2011  
 कैप्टन विक्रम एम (एमएस-15608एम), 06 मार्च 2011  
 कैप्टन बिश्वाजित कुमार ब्रह्मा (एमएस-15626पी), 06 मार्च 2011  
 कैप्टन पंकज सिंह पोसवाल (एमएस-15490डब्ल्यू), 20 मार्च 2011  
 कैप्टन ओक शैलेश कार्तिक (एमएस-15492एफ), 20 मार्च 2011  
 कैप्टन रीना यादव (एमएस-15493के), 20 मार्च 2011  
 कैप्टन नमिता सुभाष (एमएस-15278वाई), 02 मई 2011  
 कैप्टन कुलदीप सिंह (एमएस-16486ए), 10 जनवरी 2011  
 कैप्टन नवनीत राज कुमार (एमएस-15580एक्स), 06 मार्च 2011  
 कैप्टन श्रुति सिन्हा (एमएस-15259एन), 20 फरवरी 2011  
 कैप्टन प्रया ज्योति राय (एमएस-15283के), 20 फरवरी 2011  
 कैप्टन माधुरिया बैजबरुआ (एमएस-16247एल), 18 फरवरी 2010  
 कैप्टन के शारदा (एमएस-15432एम), 22 जनवरी 2011

लेफ्टि से कैप्टन के पद पर

लेफ्टि असमिता सिन्हा (एमएस-16539एन), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि नीतिका त्रिपाठी (एमएस-16541एल), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि सुमित सिंह ढिल्लन (एमएस-16550एम), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि सिद्धार्थ शिव जयसवाल (एमएस-16536ए), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि शिखा (एमएस-16540एच), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि शोभित गुप्ता (एमएस-16543डब्ल्यू), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विष्णु देव ए (एमएस-16545एफ), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि सी भरणि (एमएस-16547एम), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि मयंक दुहानी (एमएस-16548पी), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि रुद्रा शंकर डे (एमएस-16549एक्स), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि शिखा त्यागी (एमएस-16551पी), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि दीपक कुमार झा (एमएस-16552एक्स), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि तन्मय रस्तोगी (एमएस-16553ए), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विशाल झा (एमएस-16555एल), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि अनूप कुमार आचार्य (एमएस-16558वाई), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विनीत वी (एमएस-16561वाई), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि यश वर्धन दुबे (एमएस-16566एक्स), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि शशांक गुप्ता (एमएस-16537एच), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि स्वाति बिष्ट (एमएस-16557डब्ल्यू), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि अर्पित मिश्रा (एमएस-16559एफ), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विपिन कुमार पाठक (एमएस-16560डब्ल्यू), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विशाल यादव (एमएस-16563के), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि यशस्वी शुक्ला (एमएस-15672के), 01 फरवरी 2009  
 लेफ्टि आशिश अरविन्द्र (एमएस-16542एन), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि मयंक धिमेन (एमएस-16556एन), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि विशाल गुप्ता (एमएस-16562एफ), 10 फरवरी 2011  
 लेफ्टि सिनोई टोम वर्गिश (एमएस-16565पी), 10 फरवरी 2011

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तिथि

लेफ्टि अर्जुन सिंह (एनटीआर-16814एच), 07 अप्रैल 2011

लेफ्टि संतोष कुमार रघुवंशी (एनटीआर-16815एल), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि ओंकार सिंह (एनटीआर-16816एन), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि एस धंगवेल (एनटीआर-16817डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि बलविन्द्र सिंह (एनटीआर-16818वाई), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि अमनदीप सिंह (एनटीआर-16819एफ), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि सुधीर कुमार शर्मा (एनटीआर-16820डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि सलेश कुमार (एनटीआर-16821वाई), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि सुधीर कुमार दरयान (एनटीआर-16822एफ), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि विनय कुमार (एनटीआर-16823के), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि दिलीप कुमार (एनटीआर-16824एम), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि विजय सिंह गुर्जर (एनटीआर-16825पी), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि ओम प्रकाश चौधरी (एनटीआर-16826एक्स), 07 अप्रैल 2011  
 लेफ्टि अनिल कुमार उपाध्याय (एनटीआर-16827ए), 07 अप्रैल 2011

अल्पकालीन सेवा कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तिथि

लेफ्टि उधम सिंह (एनटीएस-17572एक्स), 07 अप्रैल 2011

लेफ्टि ब्रिजेश टीए (एनटीएस-17574एच), 07 अप्रैल 2011

लेफ्टि कंधा राज (एनटीएस-17575एल), 07 अप्रैल 2011

लेफ्टि देवैया एम एस (एनटीएस-17577डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 583, दिनांक 18 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित संशोधन करती हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

शुद्धि पत्र

(एमएस-16360ए)(एफ-30700एफ), फ्लाइंट लेफ्टि अजय कुमार यादव की कमीशन तिथि जोकि 30 अप्रैल 2011 के राज पत्र में प्रकाशित किया है, इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के लिए : 19 अगस्त 2009

पढ़े : 20 अगस्त 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th December 2011

## ARMY BRANCH

No. 580, dated 17th November 2011—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt

Flt Lt Sanjib Kalita (MS-16569L) (AF-30900T), DOC, 22 Mar 2010

With seniority for pay and promotion from 22 Sep 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

To be Capt

Capt Muzafar Ahmad Bhat (MS-16713P), DOC, 17 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 17 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Shweta Sikarwar (MS-16595M), DOC, 15 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 15 Jun 2007. This includes 36 months antedate for M.S. (Obstetrics & Gynaecology) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Ashwini Kumar Mishra (MS-16728X), DOC, 01 Jul 2010

With seniority for pay and promotion from 01 Jan 2007. This includes 42 months antedate seniority [36 months for Doctor of Medicine (Microbiology) and six months for hospital appointment] which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Rajesh Kumar Pandey (MS-16170N), DOC, 11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Neha Sodhi (MS-15757A), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Nishant Lohia (MS-16046M), DOC, 26 Feb 2009

With seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Surinder Kumar (MS-16160K), DOC, 10 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 10 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Cap Rakhi Singh (MS-16172Y), DOC, 11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Sunil Sharma (MS-16298Y), DOC, 28 Jul 2009

With seniority for pay and promotion from 28 Jan 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt K Neilvel (MS-16328L), DOC, 11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Mukesh (MS-16646P), DOC, 15 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 15 Jun 2007. This includes 36 months antedate for M.S. (Orthopaedics) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Prasant Gupta (MS-16612F), DOC, 15 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 15 Jun 2007. This includes 36 months antedate for M.S. (General Surgery) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Shilpi (MS-16593F), DOC, 15 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 15 Jun 2007. This includes 36 months antedate for M.S. (Obstetrics & Gynaecology) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt D Priya (MS-16698L), DOC, 16 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 16 Jun 2007. This includes 36 months antedate for M.S. (General Surgery) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Abid Ahmad (MS-16686W), DOC, 15 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 15 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Rachna Paul (MS-16439H), DOC, 04 Jan 2010

With seniority for pay and promotion from 04 Jul 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Joseph JB (MAL-16497M), DOC, 29 Jan 2010

With seniority for pay and promotion from 29 Jan 2007. This includes 36 months antedate for Master of Surgery (Orthopaedics) which will not count for gratuity

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

To be Flt Lt on probation

Flt Lt Misbahulla Umair (MS-16710F) (AF-31094G), AMC, 17 Jun 2010

Flt Lt Dorle Shekhar Lesram (MS-16667L) (AF-31079N), AMC, 15 Jun 2010

Flt Lt Bharath CS (MS-16730P) (AF-31096N), AMC, 06 Jul 2010

To be Capt on Probation

Capt Pawar Ramesh Santram (MS-16513Y), AMC, 11 Feb 2010

Capt Amitabha Chakraborty (MS-16760M), AMC, 26 Feb 2009

Capt Kartikeya R Singh (MS-16258X), AMC, 20 Aug 2009

Capt L Rini Mathews (MS-16274P), AMC, 02 Sep 2009

Capt Palashjyoti Sharma (MS-16343A), AMC, 11 Aug 2009

Capt Ashwini Kumar Mishra (MS-16728X), AMC, 01 Jul 2010

Capt Sandhya Cintury (MS-16708K), AMC, 17 Jun 2010

Capt Pradeep Misra (MS-16150A), AMC, 29 Jul 2009

Capt Prashant K (MS-16173F), AMC, 11 Aug 2009

Capt Vishnu Vardhan K (MS-16306M), AMC, 26 Feb 2010

Capt Siddaramesh Gadgi (MS-16461N), AMC, 08 Jan 2010

Capt Vaibhav Gaur (MS-16762X), AMC, 15 Jul 2010

Capt Rajesh Kumar Pandey (MS-16170N), AMC, 11 Aug 2009

Capt Muzafar Ahmad Bhat (MS-16713P), AMC, 17 Jun 2010

Capt Anuj Kumar Sharma (MS-16720L), AMC, 22 Jun 2010

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

To be LIEUT on probation

Lt Anshul Meena (MS-16772F), AMC, 18 Mar 2011

Lt Prasant Pilania (MS-16778H), AMC, 18 Mar 2011

Lt Varun Deep Mann (MS-16779L), AMC, 18 Mar 2011

Lt Niranjan Sahoo (MS-16780A), AMC, 18 Mar 2011

Lt Tapas Ranjan Bisoyi (MS-16786F), AMC, 18 Mar 2011

Lt Vignesh S (MS-16767W), AMC, 18 Mar 2011

Lt Master Jickey (MS-16769F), AMC, 18 Mar 2011

Lt Navjot Kaur (MS-16764H), AMC, 18 Mar 2011

Lt Jasmine Kaur Hundal (MS-16765L), AMC, 18 Mar 2011

Lt Subrat Kumar Das (MS-16766N), AMC, 18 Mar 2011

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

To be SURG Lt on probation

Surg Lt Bhirud Yogesh Rajesh (MS-16092F), AMC, 28 Jul 2009

Surg Lt Alok Kumar (MS-16199W), AMC, 12 Aug 2009

Surg Lt Mahesh Kumar Jain (MS-16201H), AMC, 11 Aug 2009

Surg Lt Dhokia Gautamkumar Rameshbhai (MS-16669W), AMC, 15 Jun 2010

Surg Lt Yogesh Khurana (MS-16691F), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Preethi M S (MS-16694P), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Padma Priya Srinivasan (MS-16706Y), AMC, 17 Jun 2010

Surg Lt Sudhir Sudhakar Khune (MS-16717L), AMC, 18 Jun 2010

Surg Lt Sonal Nimbhorkar (MS-16725K), AMC, 26 Jun 2010

Surg Lt Chuhan Premdeep Mahendrasinh (MS-16655W), AMC, 15 Jun 2010

Surg Lt Swaroop Patnaik (MS-16663P), AMC, 15 Jun 2010

Surg Lt Khem Sagar Patel (MS-16437X), AMC, 04 Jan 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)



## ARMY BRANCH

No. 581, dated 17th November 2011—The President is pleased to confirm the undermentioned AMC/PC (Non Tech) officers consequent on completion of the probationary period:—

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

## Army Medical Corps (Non-Tech)

Pers No, Rank, Name and Date of Commission

(NTR-16803W) Capt Sanjay Kumar, 15 Feb 2008

(NTR-16815L) Capt Santosh Kumar Raghuwanshi, 07 Apr 2009

(NTR-16819F) Capt Amandeep Singh, 07 Apr 2009

(NTR-16825P) Capt Vijay Singh Gujar, 07 Apr 2009

(NTR-16766N) Capt Premjith Lal L, 20 Mar 2007

(NTR-16800H) Capt Amit Kumar, 15 Feb 2008

(NTR-16827A) Capt Anil Kumar Upadhyay, 07 Apr 2009

(NTR-16765L) Capt Pari K, 20 Mar 2007

(NTR-16817W) Lt S Thangavel, 07 Apr 2009

(NTR-16814H) Lt Arjun Singh, 07 Apr 2009

(NTR-16816N) Lt Onkar Singh, 07 Apr 2009

(NTR-16820W) Lt Sudheer Kumar Sharma, 07 Apr 2009

(NTR-16821Y) Lt Sales Kumar, 07 Apr 2009

(NTR-16822F) Lt Sudhir Kumar Daryan, 07 Apr 2009

(NTR-16823K) Lt Vinay Kumar, 07 Apr 2009

(NTR-16824M) Lt Dilip Kumar, 07 Apr 2009

(NTR-16826X) Lt Om Prakash Choudhary, 07 Apr 2009

## SHORT SERVICE COMMISSION

## Army Medical Corps (Non Tech)

Pers No, Rank, Name and Date of Commission

(NTS-17583K) Lt Ram Chandra Bhattarai, 07 Apr 2010

(NTS-17584M) Lt Satyanarain, 07 Apr 2010

(NTS-17579F) Lt SV Narasimha Rao CH, 07 Apr 2010

(NTS-17580W) Lt Sanjay Rana, 07 Apr 2010

(NTS-17581Y) Lt Moirangthem Ranjan Meitei, 07 Apr 2010

(NTS-17582F) Lt Sanjay Singh Raghav, 07 Apr 2010

(NTS-17585P) Lt Girish G, 07 Apr 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 582, dated 17th November 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS

## Sqn Ldr to Wg Cdr

(MS-14031-L) (AF-26033F) Sqn Ldr Niranjana Mohan, 13 May 2011

## Maj to Lt Col

(MS-14713W) Maj Ashutosh Kansal, 10 Jun 2011

(MS-15851K) Maj Nidhi Vohra Maggon, 29 Aug 2010

## Flt Lt to Sqn Ldr

(MS-15476-K) (AF-28877S) Flt Lt Santosh Kumar Umar, 22 Jan 2011

(MS-15625-M) (AF-29419L) Flt Lt Lalit Kumar, 06 Mar 2011

(MS-14858-F) (AF-27661G) Flt Lt Rahul, 09 Aug 2009

(MS-14869-N) (AF-27662K) Flt Lt Amit Kumar, 09 Aug 2009

(MS-15248-F) (AF-28415H) Flt Lt Arpita Jain, 20 Feb 2011

(MS-15471-L) (AF-28882F) Flt Lt B Praveen Kumar, 22 Jan 2011

(MS-15477-M) (AF-28888G) Flt Lt Jaya Tewari, 22 Jan 2011

## PERMANENT COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

## Capt to Major

Pers No, Rank, Name and Date of Promotion

(NTR-16711K) Capt Mohan Singh Kapkoti, 28 Apr 2011

(NTR-16712M) Capt Jayavelu S, 28 Apr 2011

(NTR-16713P) Capt I Arockia Samy, 28 Apr 2011

(NTR-16714X) Capt Ramesh Thiraviam K, 28 Apr 2011

(NTR-16715A) Capt Kailas P S, 28 Apr 2011

(NTR-16716H) Capt Sunil Y, 28 Apr 2011

(NTR-16717L) Capt Guram Ravi Narsaiah, 28 Apr 2011

(NTR-16718N) Capt Sanjeev Uniyal, 28 Apr 2011

(NTR-16719W) Capt Vinod Kumar U, 28 Apr 2011

(NTR-16720L) Capt Ravindra Kumar Malik, 28 Apr 2011

(NTR-16721N) Capt D Prakash Rao, 28 Apr 2011

(NTR-16723Y) Capt Virendra Kumar Pandey, 28 Apr 2011

(NTR-16810M) Capt Daleep Kumar, 28 Apr 2011  
 (NTR-16811P) Capt Varghese K Y, 28 Apr 2011  
 (NTR-16812X) Capt Gurumendra Giri, 28 Apr 2011  
 (NTR-16828H) Capt Kailash Chandra, 28 Apr 2011  
 (NTR-16829L) Capt Chandra Prakash, 28 Apr 2011  
 (NTR-16830A) Capt Prabhakaran K, 28 Apr 2011  
 (NTR-16846L) Capt Suresh P S, 28 Apr 2011  
 (NTR-16847N) Capt Hari Sai Srinivas, 28 Apr 2011

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

##### Capt to Maj

Pers No, Rank, Name, Date of Promotion

(NTS-17506P) Capt Narendra Singh, 28 Apr 2011  
 (NTS-17511A) Capt Tomar Shiv Prakash Singh Rajendra Singh, 28 Apr 2011  
 (NTS-17513L) Capt Bijith Kumar P S, 28 Apr 2011  
 (NTS-17514N) Capt Neelakantan P S, 28 Apr 2011  
 (NTS-17515W) Capt Parwinder Singh, 28 Apr 2011  
 (NTS-17520F) Capt Bikash Chand Rana, 28 Apr 2011  
 (NTS-17523P) Capt Abhay Singh, 28 Apr 2011  
 (NTS-17525A) Capt Ravinder Jambhale, 28 Apr 2011

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS

##### Capt to Maj

(MS-15443Y) Capt Akshay Shukla, 22 Jan 2011  
 (MS-15608M) Capt Vikram M, 06 Mar 2011  
 (MS-15626P) Capt Biswajit Kumar Brahma, 06 Mar 2011  
 (MS-15490W) Capt Pankaj Singh Poswal, 20 Mar 2011  
 (MS-15492F) Capt Oke Shailesh Kartik, 20 Mar 2011  
 (MS-15493K) Capt Reena Yadav, 20 Mar 2011  
 (MS-15278Y) Capt Namita Subhash, 02 May 2011  
 (MS-16486A) Capt Kuldeep Singh, 10 Jan 2011  
 (MS-15580X) Capt Navneet Raj Kumar, 06 Mar 2011  
 (MS-15259N) Capt Shruti Sinha, 20 Feb 2011  
 (MS-15283K) Capt Pragya Jyoti Roy, 20 Feb 2011  
 (MS-16247L) Capt Madhurya Bezbaruah, 18 Feb 2010  
 (MS-15432M) Capt K Sharada, 22 Jan 2011

##### To be Capt

(MS-16539N) Lt Asmita Sinha, 10 Feb 2011  
 (MS-16541L) Lt Neetika Tripathi, 10 Feb 2011

(MS-16550M) Lt Sumeet Singh Dhillon, 10 Feb 2011  
 (MS-16536A) Lt Siddharth Shiv Jaiswal, 10 Feb 2011  
 (MS-16540H) Lt Shikha, 10 Feb 2011  
 (MS-16543W) Lt Shobhit Gupta, 10 Feb 2011  
 (MS-16545F) Lt Vishnu Dev A, 10 Feb 2011  
 (MS-16547M) Lt C Bharani, 10 Feb 2011  
 (MS-16548P) Lt Mayank Dudani, 10 Feb 2011  
 (MS-16549X) Lt Rudra Shankar Dey, 10 Feb 2011  
 (MS-16551P) Lt Shikha Tyagi, 10 Feb 2011  
 (MS-16552X) Lt Deepak Kumar Jha, 10 Feb 2011  
 (MS-16553A) Lt Tanmaya Rastogi, 10 Feb 2011  
 (MS-16555L) Lt Vishal Jha, 10 Feb 2011  
 (MS-16558Y) Lt Anup Kumar Acharya, 10 Feb 2011  
 (MS-16561Y) Lt Vineeth V, 10 Feb 2011  
 (MS-16566X) Lt Yash Vardhan Dubey, 10 Feb 2011  
 (MS-16537H) Lt Shashank Gupta, 10 Feb 2011  
 (MS-16557W) Lt Swati Bisht, 10 Feb 2011  
 (MS-16559F) Lt Arpit Mishra, 10 Feb 2011  
 (MS-16560W) Lt Vipin Kumar Pathak, 10 Feb 2011  
 (MS-16563K) Lt Vishal Yadav, 10 Feb 2011  
 (MS-15672K) Lt Yashasui Shukla, 01 Feb 2009  
 (MS-16542N) Lt Ashish Aravind, 10 Feb 2011  
 (MS-16556N) Lt Vishal Gupta, 10 Feb 2011  
 (MS-16562F) Lt Cinoy Tom Varghese, 10 Feb 2011  
 (MS-16565P) Lt Mayank Dhiman, 10 Feb 2011

#### PERMANENT COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

##### Lt to Capt

Pers No, Rank, Name and Date of Promotion

(NTR-16814H) Lt Arjun Singh, 07 Apr 2011  
 (NTR-16815L) Lt Santosh K Raghuwanshi, 07 Apr 2011  
 (NTR-16816N) Lt Onkar Singh, 07 Apr 2011  
 (NTR-16817W) Lt S Thangavel, 07 Apr 2011  
 (NTR-16818Y) Lt Balwinder Singh, 07 Apr 2011  
 (NTR-16819F) Lt Amandeep Singh, 07 Apr 2011  
 (NTR-16820W) Lt Sudheer Kumar Sharma, 07 Apr 2011  
 (NTR-16821Y) Lt Satesh Kumar, 07 Apr 2011  
 (NTR-16822F) Lt Sudhir Kumar Daryan, 07 Apr 2011  
 (NTR-16823K) Lt Vinay Kumar, 07 Apr 2011  
 (NTR-16824M) Lt Dilip Kumar, 07 Apr 2011

(NTR-16825P) Lt Vijay Singh Gujar, 07 Apr 2011

(NTR-16826X) Lt Om Prakash Choudhary, 07 Apr 2011

(NTR-16827A) Lt Anil Kumar Upadhyay, 07 Apr 2011

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

Lt to Capt

Pers No, Rank, Name, Date of Promotion

(NTS-17572X) Lt Udham Singh, 07 Apr 2011

(NTS-17574H) Lt Brijesh TA, 07 Apr 2011

(NTS-17575L) Lt Kantha Raj, 07 Apr 2011

(NTS-17577W) Lt Devaiah MS, 07 Apr 2011

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 583, dated 18th November 2011—The President is pleased to make the following amendment:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## CORRIGENDUM

The date of Commission in respect of MS-16360A (AF-30700F) Flt Lt Ajay Kumar Yadav Published in Gazette dated 30 April 2011 is amended as follows:

For : 19.08.2009

Read : 20.08.2009

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)